



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 701) पटना, शुक्रवार, 6 सितम्बर 2013

बिहार-राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

29 अगस्त 2013

सं0 नि० प्रा०/नि० 1-22/2012-948—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड, राजेन्द्रनगर, पटना के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु इस संघ से संबद्ध चार क्षेत्रीय संघ क्रमशः (i) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, बिहारशरीफ, नालन्दा (ii) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, सिवान (iii) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, मधुबनी एवं (iv) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, भागलपुर के अधीनस्थ प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों से डेलीगेट का चुनाव सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड की उपविधि के नियम-12.1 तथा क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड की उपविधियाँ के नियम-11 (xii) में यथा

अंकित उक्त क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के डेलीगेट्स के चुनाव हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 03.10.2013 (गुरुवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन क्षेत्रीय संघ के डेलीगेट्स का चुनाव करें। प्रत्येक क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ के अधीनस्थ प्रत्येक 10 (दस) प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति अथवा अंश के लिए एक डेलीगेट, अधिकतम 20 (बीस) डेलीगेट्स का चुनाव कराया जायेगा। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-871 दिनांक 25.07.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.07.2013 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 23.08.2013 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में उक्त क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के डेलीगेट्स के चुनाव में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) उक्त संघ के डेलीगेट्स में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (ii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या डेलीगेट्स के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iii) अगर डेलीगेट्स के चुनाव में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर डेलीगेट्स की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के थाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ के डेलीगेट्स के चुनाव के लिए संलग्न मानक प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-2**) में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 05.09.2013 को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ के डेलीगेट्स के चुनाव का कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन संघों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र-2 में तथा निर्वाचन की तिथि को

संलग्न प्रपत्र-3 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

विभिन्न क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के डेलीगेट के चुनाव हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	05.09.2013 (बृहस्पतिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	21.09.2013 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	23.09.2013 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	24.09.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	03.10.2013 (बृहस्पतिवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	03.10.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

प्रपत्र-2

क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, के डेलीगेट्स के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

जिला : प्रखंड :

केन्द्रीय/ शीर्ष समिति का नाम, जिससे समिति संबद्ध है : समिति का कार्य विवरण:

अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या : संवीक्षा की तिथि : DD/MM/YYYY

समिति का नाम :

क्रमांक	डेलीगेट्स	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-2

.....संघ,

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(क्षेत्रीय हस्तकरषा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के डेलीगेट के निर्वाचन के लिए)

..... संघ, निबंधन संख्या, पता
के डेलीगेट का निर्वाचन दिनांकको किया जाना है।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
 (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार उल्लेख करें।	

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(स्थान का नाम)

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर बजे पूर्वाह्न से बजे

(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को बजे अपराह्न से ... बजे अपराह्न के पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है।

(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

**क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, के
डेलीगेट्स के निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची**

जिला : प्रखंड :
मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या :
कुल मतदाताओं की संख्या : :
समिति का नाम : निर्वाचन की तिथि : DD/MM/YYYY

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
डेलीगेट्स				

*अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 701-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>